



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 748) पटना, शुक्रवार, 16 सितम्बर 2016

#### बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

12 दिसम्बर 2015

सं0 2927—भागलपुर जिलान्तर्गत ग्राम— तरडीहा, पो0— बलुआचक, थाना+अंचल— जगदीशपुर स्थित श्री श्री 108 गोनु बाबा धाम मंदिर एक सार्वजनिक हिन्दु धार्मिक न्यास है। इस न्यास का निबंधन सं0—3761/07 है।

न्यास की सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं उसके सम्यक विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना पत्रांक—917, दिनांक 11/09/07 से एक न्यास समिति का गठन किया गया था, जिसकी अवधि गजट प्रकाशन से अगले 05 वर्षों तक की थी। इस प्रकार इसकी अवधि वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। सदस्यों के पुनर्मनोनयन हेतु समिति के अध्यक्ष ने आम सभा की बैठक की छायाप्रति पर्षद को उपलब्ध करायी है। चूंकि पूर्व से मनोनित न्यास समिति का विवरण—बजट तथा पर्षद शुल्क, पर्षद को प्राप्त है और मंदिर का निर्माण कार्य भी किये गये हैं, जिस कारण समिति के कार्य कुछ संतोषप्रद प्रतीत होता है।

अतः आम सभा के आलोक में उपरोक्त परिस्थिति देखते हुए बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा— 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा— 32 के अन्तर्गत में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0— 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री श्री 108 गोनु बाबा धाम मंदिर ग्राम— तरडीहा, पो0— बलुआचक, थाना+अंचल— जगदीशपुर, जिला— भागलपुर के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

#### योजना

1. अधिनियम की धारा— 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री श्री 108 गोनु बाबा धाम मंदिर न्यास योजना ग्राम— तरडीहा, पो0— बलुआचक, थाना+अंचल—जगदीशपुर, जिला—भागलपुर” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री श्री 108 गोनु बाबा धाम मंदिर न्यास समिति ग्राम— तरडीहा, पो0— बलुआचक, थाना+अंचल—जगदीशपुर, जिला—भागलपुर” जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा—पाठ एवं साधु—सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा ।
  5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी ।
  6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी ।
  7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी ।
  8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तारित भूमि "यदि कोई हो तो", उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी ।
  9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा ।
  10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।
  11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती है:-

(1)	श्री शालीग्राम यादव		
	ग्राम- तरडीहा, थाना- जगदीशपुर, भागलपुर	—	अध्यक्ष
(2)	श्री दिवाकर चन्द्र दूबे		
	ग्राम- जमीन फुलवरिया, पो0- बैजानी, था0+अं0- जगदीशपुर, भागलपुर	—	उपाध्यक्ष
(3)	श्री धर्मदास		
	ग्राम- तरडीहा, पो0- बलुआचक, थाना+अंचल- जगदीशपुर, भागलपुर	—	संयोजक
(4)	श्री गिरिश चन्द्र राय		
	ग्राम- तरडीहा, पो0- बलुआचक, था0+अं0- जगदीशपुर, भागलपुर	—	कोषाध्यक्ष
(5)	श्री उत्तम कुमार		
	ग्राम- तरडीहा, पो0- बलुआचक, था0+अं0- जगदीशपुर, भागलपुर	—	सचिव
(6)	श्री शंभु पाण्डेय		
	ग्राम- मकससपुर, पो0- बैजानी, जगदीशपुर, भागलपुर	—	सदस्य
(7)	श्री मंटु सिंह		
	ग्राम- विद्यानन्दी, पो0- बलुआचक, था0+अं0- जगदीशपुर	—	सदस्य
(8)	श्री राकेश मंडल		
	ग्राम- तरडीहा, पो0- बलुआचक, थाना+अंचल- जगदीशपुर	—	सदस्य
(9)	श्री राजकिशोर तिवारी		
	ग्राम- तरडीहा, पो0- बलुआचक, थाना+अंचल- जगदीशपुर, भागलपुर	—	सदस्य
(10)	श्री रामविलास रविदास		
	ग्राम- तरडीहा, पो0- बलुआचक, थाना+अंचल- जगदीशपुर, भागलपुर	—	सदस्य
(11)	श्री रविकांत झा		
	ग्राम- आजादनगर, भागलपुर	—	सदस्य

12. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्ष तक लागू रहेगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले न्यास समिति विस्तार पर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा ।

विश्वासभाजन,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 748-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>